



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 1039 राँची, सोमवार, 16 दिसम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

10 दिसम्बर, 2019

संख्या-13/शक्ति प्र०-01/2017 का०- 9895-- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-98 दिनांक- 07.12.2019 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में, उक्त पत्र के साथ अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित, विधानसभा आम निर्वाचन, 2019 के लिये सेक्टर दण्डाधिकारी (सुरक्षित सहित) के रूप में प्रतिनियुक्त 140, पीठासीन पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 1093, तथा प्रथम मतदान पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 1104 पदाधिकारियों/कर्मचारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के तहत उनकी प्रतिनियुक्ति की तिथि से उक्त निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक की अवधि के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रेम कुमार राय,
सरकार के अवर सचिव